

अग्ना सुरक्षा




कार्यशील धुएं अलार्म जीवन को बचाने में मदद करते हैं?

बे डरूम और रहने वाले कक्ष त्रों के बीच रखे गए घर के प्रत्येक स्तर पर आपके पास कम से कम एक कार्यशील धुएं अलार्म होना चाहिए। हर महीने अपने धुएं अलार्म काम की जाँच करें।

बहार नकिलो। बाहर रहना। ट्रपिल जीरो (000) पर कॉल करें

अगर घर में आग लगी है, तो अपनी भागने की योजना को जानें और उसका उपयोग करें। जलती हुई इमारत के अंदर कभी वापस न जाएं।



हीटर से सब कुछ एक मीटर की दूरी पर रखें।

हीटर पर कपड़े सुखाने के लिए कभी न रखें और बसिटर और कंबल हमेशा कम से कम एक मीटर की दूरी पर रखें।

बाहरी रसोई गैस के चूल्हे बाहर रखना चाहिए।

कभी भी रसोई गैस के स्टोव का उपयोग अंदर या सीमति स्थानों पर न करें। यह एक स्वास्थ्य और आग का खतरा है।



यदि आपके कोई और प्रश्न हैं या आप अपने घर में एक मुफ्त सुरक्षा जाँच चाहते हैं, तो कृपया QR कोड को स्कैन करें और बुकिंग फॉर्म को पूरा करें।

